

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 अक्टूबर 2022

प्रश्न -1

भारत में अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए, किस कंपनी ने ब्राजील के तेल प्रमुख पेट्रोब्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?

- A) कोल इंडिया लिमिटेड
- B) BPCL
- C) HPCL
- D) ONGC

सही उत्तर: B

केंद्र द्वारा संचालित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने भारत में अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने के लिए ब्राजील की प्रमुख तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रश्न -2

हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए किस देश ने JMC प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए?

- A) बांग्लादेश
- B) भूटान
- C) मालदीव
- D) नेपाल

सही उत्तर: C

भारत की JMC प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 अक्टूबर 2022

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया?

- A) बिहार
- B) कर्नाटक
- C) मध्य प्रदेश
- D) उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: D

आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूपी सरकार को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार-2022 से सम्मानित किया गया है।

प्रश्न -4

निम्नलिखित में से किसे प्रथम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है?

- A) आलोक शर्मा
- B) रानिल जयवर्धने
- C) ऋषि सुनक
- D) सुएला ब्रेवरमैन

सही उत्तर: D

भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है।

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस टीम ने दलीप ट्रॉफी 2022 जीती?

- A) वेस्ट जोन
- B) ईस्ट जोन
- C) नॉर्थ जोन
- D) साउथ जोन

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 अक्टूबर 2022

सही उत्तर: A

2022 दलीप ट्रॉफी के अंतिम दिन वेस्ट जोन ने साउथ जोन को 294 रन से हराकर 19वां खिताब अपने नाम किया।

प्रश्न -6

हाल ही में किस राज्य द्वारा 5-वॉल्यूम का 'एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स' जारी किया गया?

- A) असम
- B) मध्य प्रदेश
- C) मेघालय
- D) ओडिशा

सही उत्तर: D

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 'एनसाइक्लोपीडिया आफ ट्राइबल्स इन ओडिशा' के पांच संपादित संस्करणों का अनावरण किया, जिसमें 13 विशेष रूप से कमजोर समूहों सहित आदिवासियों पर 418 शोध लेख हैं।

प्रश्न -7

फीफा ने किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के जीवन और करियर पर तीन-एपिसोड की श्रृंखला जारी की है?

- A) गुरप्रीत सिंह संधू
- B) आई.एम. विजयन
- C) प्रणय हलदर
- D) सुनील छेत्री

सही उत्तर: D

विश्व फुटबॉल शासी निकाय फीफा ने भारतीय स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री के जीवन और करियर पर उनकी उपलब्धियों और गोल स्कोरिंग कारनामों के सम्मान में तीन-एपिसोड की श्रृंखला जारी की है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 03 अक्टूबर 2022

प्रश्न -8

निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ टॉयकैथॉन लॉन्च किया है?

- A) ग्रामीण विकास मंत्रालय
- B) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- C) शिक्षा मंत्रालय
- D) संस्कृति मंत्रालय

सही उत्तर: B

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MOHUA) ने खिलौनों के निर्माण में कचरे के उपयोग के समाधान का पता लगाने के लिए स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ टॉयकैथॉन का शुभारंभ किया।

प्रश्न -9

एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए किस वित्तीय संस्थान ने 14 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है?

- A) ADB
- B) IMF
- C) न्यू डेवलपमेंट बैंक
- D) विश्व बैंक

सही उत्तर: A

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा संकट से लड़ने के लिए 14 बिलियन अमरीकी डालर के कोष की घोषणा की है, जो प्रतिकूल जलवायु से जूझ रहे हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध ने आपूर्ति लाइनों को अवरुद्ध कर दिया है।

डेली करंट अफेयर्स क्विज - 03 अक्टूबर 2022

प्रश्न -10

चीन द्वारा विकसित दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक भेड़िये का नाम क्या है?

- A) लिली
- B) माया
- C) सोफिया
- D) रोजी

सही उत्तर: B

'माया' नाम के एक जंगली आर्कटिक भेड़िये को दुनिया में पहली बार बीजिंग स्थित जीन फर्म द्वारा सफलतापूर्वक क्लोन किया गया था।